

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
हौज खास, नई दिल्ली -110016
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
Hauz Khas, New Delhi-110016
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP04099G/

379408

Advertisement No.: IITD/IRD/210/2021

Dated: 15/12/2021

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	Wireless single contact Electrical Power Transmission on conducting surfaces (DRDO-IITD JATC) (RP04099G)	
Funding Agency	Department of Defence Research & Development Organization (DRDO)	
Name of the Project Investigator	Prof. Ankur Gupta [email id:Ankur.Gupta@care.iitd.ac.in]	
Deptt./ Centre	Centre for Applied Research in Electronics (CARE)	
Duration of the Project	Upto:29/03/2024	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Sr. Research Fellow (1)	Rs.35,000/-p.m. plus HRA @ 24%	Post Graduate Degree in Electronics or Instrumentation with two years of research experience with GATE* qualification. Preferably M.Tech project/MS should be in Electronic System Design. Strong background in RF/wireless transmission is desired. *The requirement of NET/GATE examination for the selection to the post of JRF/SRF may be relaxed for the candidates who have graduated from Centrally Funded Technical Institutes (CFTIs) with a CGPA of more than 8.000 (80% aggregate marks).
Jr. Project Attendant (1)	Rs.18,000-19,300-20,600-22,200-23,800-25,400/-p.m. plus HRA @ 24%	10th Pass with a minimum of 6 months experience in electronic prototype design from a reputed college/laboratory such as NITs/IITs. Diploma or ITI Preferrable.

The candidates who are interested to apply for the above post should download Form No. IRD/REC-4 from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. by e-mail with advertisement No. on the subject line email id: ta.ankur.care.iitd@gmail.com

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the online interview details. **Only short-listed candidates will be informed for online interview.** In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact Prof. Ankur Gupta at email id: ta.ankur.care.iitd@gmail.com

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। **The last date for submitting the completed applications by e-mail is 29/12/2021 by 5.00 p.m.**

सहायक कुलसचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Ankur Gupta, PI, Centre for Applied Research in Electronics (CARE)
- Copy to Chairperson, DRC/CRC
- Dr. Harshita Bhatnagar, RD Coordinator, (R&D) Wing